



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 15, 2009/पौष 25, 1930

No. 5]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2009/PAUSA 25, 1930

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2009

आ.अ. 6(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, और भारत निर्वाचन आयोग, असम सरकार के परामर्श से, असम राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से सम्बन्धित अपनी दिनांक 16 जनवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या 434/ए एस/96(1) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन और करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से सम्बद्ध सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 11-कालियाबोर के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर “अपर उपायुक्त, नोगांव” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

नोट :—ऊपर दर्शाए गए शब्द ए डी सी से अभिप्राय जिले में वरिष्ठतम अपर उपायुक्त से है।

[सं. 434/ए एस/2009(1)]

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2009

O.N. 6(E).—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Assam, hereby makes the following further amendment in its notification No. 434/AS/96(1), dated 16th January, 1996, relating to the appointment of Returning Officers for Parliamentary Constituencies in the State of Assam, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entry against item No. 11-Kaliabor, the entry “Additional Deputy Commissioner, Nagaon” shall be substituted.

Note : ADC, mentioned above would mean the senior most Additional Deputy Commissioner in the District.

[No. 434/AS/2009(1)]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Secy.